



फैक्टर फंड में नविश

[स्रोत: लाइव मटि](#)


हाल ही में ज्यादातर भारतीयों ने फैक्टर फंड में नविश करना शुरू कर दिया है, जो अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध नविश विकल्प है, क्योंकि इससे स्टॉक चयन रणनीति के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

- वर्ष 2023 और 2024 के दौरान इस श्रेणी में प्रबंधन के तहत परसिंपत्त 3 गुना से अधिक बढ़ गई, जो नविशकों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।

कारक-आधारित नविश रणनीति:

- **परिचय:**
 - फैक्टर नविश के अंतर्गत परसिंपत्त विर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अस्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रटिर्न (फैक्टर) के विशिष्ट चालकों को लक्ष्य करना शामिल है।
 - भारत में फैक्टर नविश का विकास सेंसेक्स और नफिटी जैसे बुनियादी सूचकांकों से अधिक विशिष्ट एकल-कारक फंडों में स्थानांतरित हो गया है, जो गुणवत्ता, मूल्य एवं गति जैसे गुणों पर जोर देते हैं।
- **लाभ:**
 - ये पोर्टफोलियो रटिर्न को बेहतर बनाने, अस्थिरता को कम करने और विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करते हैं।
- **उदाहरण:**
 - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के रणनीतिक सूचकांकों में Nifty50 Value 20 और Nifty200 Momentum 30 शामिल हैं।
- **प्रदर्शन:**
 - इन सभी ने वर्ष 2024 में बेंचमार्क Nifty 50 से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, Nifty 50 की 12% वृद्धि की तुलना में 15-38% के बीच रटिर्न प्राप्त किया है।

Factor Investing Strategies



और पढ़ें: [शेयर बाज़ार वनियमन](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/factor-investing>